

**BHAVANANKUR**



**BHAVNA TRUST**  
**JUNIOR & DEGREE COLLEGE OF**  
**COMMERCE & SCIENCE**

Plot No. 5, Sunder Baug,  
Raje Shivaji Chowk, V. N. Purav Marg,  
Opp. Eastern Freeway, Deonar,  
Mumbai - 400 088.  
Tel.: 2551 8649 / 2556 1817 /  
2558 6284 / 2538 6285

**BHAVANANKUR**  
**MAGAZINE 2015 - 2016**



## EDITORIAL

The trustees of Sarvodaya Samaj established Sarvodaya Vidyalaya in 1969. This is the first private Gujarati Medium School in Chembur. To begin with, the School did not have its own building and was started with classrooms provided by **Swami Vivekananda School** at Chembur. Next year it was shifted to a building at 11 th Road in Chembur and two years later to the present premise in a huge building on a Land belonging to **Shri Pravinchandra Dwarkadas Dalal**.

**Bhavna Trust** was established in 1972 with a team of four enthusiastic, education loving and dynamic trustees Late Shri. Gagubhai Tokarshi' Chhadva, Shri Keshvaji Umarshi Chhadva, Shri Pravinchandra Dwarkadas Dalal and Late Shri Mulji Khiyanshi Nisar. In 1973-74 Bhavna Trust took over the management of "**Sarvodaya Vidyalaya**" from Sarvodaya Samaj. As a first step it purchased the premises for the school. The trustees appealed to their friends for donations for the school building. Response was extremely good. In December 1974, the school building was started. Trustees gave personal attention to the building work with full dedication and self sacrifice. Essential facilities have been provided in the school. The staff, students and parents co-operated a lot and bore all hardships along with the trustees during the transit phase.

The school and College is managed through the school committee and college committee that keeps in mind the basic aims and objectives of the trust and follows department rules and regulations while running the school and college. Admissions are given to all pupils making no distinctions of caste, creed and religion. Donations are not raised from the pupils for admissions or any other purpose at any stages.

As time passed by, there was growing demand from parents and well wishers for an English Medium School. In response to this, **Bhavna Trust** set up **Sarvodaya Vidyalaya** English Medium in 1980 with a K.G. Class. Thereafter every year as a natural growth an additional standard was added in 1992, "the first batch of English Medium student's appeared for S.S.C. Exam.

'**Sarvodaya Vidyalaya**' began with hard days. With the support of staff, students (past and present) and well wishers, a paradise has been created at Sarvodaya Vidyalaya.

In 1991 Bhavna Trust has started computer classes to give knowledge of computer to all the students, from standard I to standard X for that an ultra modern computer laboratory was set up with 10 computers till today it is running successfully.



In the year 1997 Bhavna Trust obtained a permission to start Junior College of Science & Commerce, which was attached to our Mehta Sarvodaya Vidyalaya Gujarati Medium and it started Junior College of Commerce named Mehta Sarvodaya Junior College of Commerce. This college was started with a view that students who passed S.S.C. from our school need not go in other college and students can take admission in Junior College. This has helped our students a lot because students of this school, do not have to run from one college to other for admission and do not have to pay any donation.

The ultimate aim of **Bhavna Trust** was to provide education to needy students from Junior KG to Degree. The aim was, a child who takes admission in Junior KG should complete his/her education up to graduation in once premises only. With a view **Bhavna Trust** obtained a permission to open a degree college of B.Sc. (Computer) and Degree College of Commerce in the year 2003 and it started its degree college in the year 2003 B.Sc. (IT) in the year 2007 & B.M.S. (2008).

All the parents worry about their children's education admission at 3 stage, Junior KG, after passing S.S.C. in Junior College and after completing Junior College, admission in Degree college. Parents who have undergone the

worries at these 3 stage know how difficult it is to get an admission at all the 3 stages. **Bhavna Trust** has come forward and established such a trust amongst parents that now they know that those days are over and they need not worry about the admission of their children not only that Bhavna Trust knows about the modern technology and by keeping in mind it has started Degree college in computer. Two ultra modern computer labs were set up to give better education to students. Library is opened for the students with all the required books available. Advance computer classes have also been opened and for recreation purpose sports gymkhana is also opened. (Bhavna Trust has opened College of Bachelor of Management Science in 2008.) Ultra modern Physics, Chemistry & Biology laboratories are set-up with all the required apparatus.

Apart from the education we encourage other cultural activities in the college such as dramas, music and other activities.

To encourage poets and authors, we have started a magazine named **Bhavanankur**. We are sure that management with the help of the students will nourish the Ankur with love and affection that, the Ankur will grow and become a such a big tree that it will give fruits, shelter and shadow to one and all.



## REPORT ON ACTIVITIES ORGANISED IN THE ACADEMIC YEAR 2015-16

Bhavna Trust's Junior & Degree College of Commerce & Science endeavors to create an environment, to mould the youth of India into excellent Indian citizens convinced of meaning and purposes of life imbibed with the nation's plans and act as agents of change in a complex and challenging world at large. In the academic year 2015-16, Bhavna Trust organized various activities as summarized below.

The academic year started on 17<sup>th</sup> June, 2015. Fresher's party arranged by the Senior Degree students on 14<sup>th</sup> July 2015 for the new comers. Various games were organized on this occasion.

On 2<sup>nd</sup> July 2015, a seminar was conducted by WILL & SKILL on interview skills. The speaker, Mr. Sarang Yande, guided the students for developing the professional communication skills and etiquettes to be followed at the time of interview.

Demo lecture on Personality Development was conducted on 8<sup>th</sup> July 2015 by the above mentioned person. Mr. Sarang Yande has given very effective demo lecture to CS/IT/BMS/ B.COM students in which he discussed what are the important areas where students are lagging behind and how to develop the Personality. He conducted some time bound activities also.

On 27<sup>th</sup> July 2015, TCS [TATA CONSULTANCY SERVICES] conducted event named as 'ONLINE PROGRAMMING EXERCISES & COURSES'. TCS is one of the largest software companies in the world. This institution offers IT opportunities to science graduates from across 6,000 colleges. This institution provided us free online programming exercises, online courses and thousands of practices tests to enable our students to better prepare for to career in the IT industry. Our students registered themselves on the following link:

<http://openseesame.tcs.com/ignite>. Now students can practice on their own for Maths/ English/ General Knowledge/Computer related subjects and can groom themselves for industrial entry examinations.

On 31st July 2015, Seminar on Career-Making was organized by MET. MET is a conglomerate of premiere educational Institutions that offers professional courses in Management, Mass Media, Information Technology, Animation, Pharmaceuticals and Analytical Chemistry amongst others. MET is organizing a series of informative seminars- 'GET THE EDGE'. Prof. Mrs. Amruta Parvatikar, the expert faculty of MET delivered lecture on career-making seminar. In this she focused on the various advantages of MET and introduced couple of courses for our B.Com and BMS



students.

Friendship day celebration was organized on 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> August 2015 by Degree college students. Students had arranged party on their own. In which they had decorated individual classrooms, arranged friendship bands, snacks. Party started with speech of class representative and it was followed by various games like Reverse of Alphabetical Order, Antakshari, Shayari, Dumbshallart, Passing the Passers, Jokes Telling were conducted.

On 4<sup>th</sup> August 2015 seminar on presentation skills was organized by 'BUYONCEE BUILD INDIA' is situated at Bangalore, which is an organization that specializes in unique & effective approaches to effective communication with the self with others- individually or in groups or in public. This institute recognized by Sir Ratan Tata Trust was created to inspire and motivate in order to make a difference to our nation by empowering the youth of today. This firm not only gives training for individuals in corporate, schools, colleges it reaches out socially to the underprivileged in the slums, villages. Mr. Ajit Kaikini and Mr. Vendata Naga Kashyap delivered very effective, motivational speech to our students in which they described soft skills like confidence development, anger management, conflict management, presentation skills, leadership qualities.

On 16<sup>th</sup> August 2015, Seed InfoTech had arranged a seminar on the topic 'CARRER OPPORTUNITIES IN DOT NET'. The speaker advised how one can groom oneself in Dot Net technologies, the field work requirements of a IT company in Dot Net, why to choose career in Dot Net as compare-to other technologies etc. It was an interactive session. This seminar was eye opener for our second year students.

Teacher's day was celebrated on 5<sup>th</sup> September 2015 with a great enthusiasm by all Degree students. Students decorated their classrooms beautifully. Students have contributed on their own for this celebration. Teachers of all the respective streams were invited by students. Program started with the speech given by teachers. Students gave bouquet, gifts and cards to the teachers and showed their gratitude towards teachers. Program followed by dance, singing and snacks distribution.

On 14th September 2015, Aptitude Test was conducted by NIIT for all FY Degree College students. NIIT had introduced scholarship program 'BHAVISHYA JYOTI' at Mumbai level in which they conducted APTITUDE TEST for all FY streams. Our all streams students responded well for the same. On 15<sup>th</sup> September 2015, 'One Day Project' activity is Students Development Program which was carried out by SEED INFOTECH, Ghatkopar(W) center. For this event our TYIT students were nominated. They had given 'Batch Execution' application for development. The end user was 'TECH MAHINDRA'. The students developed system in dot net and backend



was My Sql Server. Our students received participation certificate from SEED InfoTech. Students got very nice experience of application development by one of the well known software companies.

Ganesh Idol Making competition was held on 15<sup>th</sup> September 2015 with great enthusiasm conducted in which our students have shown their talent. This competition was conducted for Junior as well as Degree college students.

Diya Making competition was organized by our Junior and Degree College students on 7<sup>th</sup> November 2015, in which they actively participated and showed their talent by making very nice and colorful diyas.

Career Fair was organized by ENERGIA WELLBEING PVT. Ltd.[ENERGIA CAREER EXPLORATION] on 5<sup>th</sup> December 2015. Career guidance plays an important role in motivating and guiding the students'in choosing a better career program for a brighter future. The whole set up was done by this organization one day in advance. They set up 2 tents in which well known organizations like BSE(BOMBAY STOCK EXCHANGE)and D.Y. Patil College was actively giving Career guidance to our BSc. CS. /IT/B.Com/BMS . They also held a lucky draw competition in which, 25 lucky winners will get a free Imagica ticket.

On 10<sup>th</sup> December 2015 'STREET PLAY' BHARTIYAMAHLA FEDERATION (THANE SAMITI) organized in our college ground from 12.45 p.m. to 2.00 p.m. In this play this organization had effectively put light on the very burning social issue on 'WOMEN HARASSEMENT'.

On 15<sup>th</sup> & 16<sup>th</sup> December 2015, ITRANSFORM WORKSHOP was held. This event was organized by CHINMAYA YUVA KENDRA(Global Youth Wing Of Chinmaya Mission) named as TRANSFORMING INDIANS TO TRANSFORM INDIA. This workshop was conducted for students and teachers which was held free of cost for 2 days. In these sessions the main focus was youth transform, holistic education, youth empowerment etc. The speakers put light on suicide rates in India in the 15-29 year age group and 40% increase in the juvenile crime rate in cities. All these problems have one solution that the youth of India need an ideal to inspire them and once they find their ideal it will transform their lives.

**Mrs. Vrushali V. Gholap**  
Professor IT/CS



# BHAVANANKUR

## Picnic at water kingdom



Personality Development Programme



Health Camp for Bhavna college staff




Drawing & Greeting card competition









*Various Seminars conducted in College*





*Computer Lab1*



*Computer Lab2*



*Chemistry Lab*



*Physics Lab*



*Biology Lab*



*Library*



## BHAVNA TRUST COLLEGE

A Report on Inter College Fest – “FREAK’16” held during Jan 14<sup>TH</sup> - 16<sup>TH</sup>, 2016 As per the culture of Bhavna Trust College, every academic year organizes inter college technical and non technical fest for aspirants assembling from various colleges with a very high competitive spirit to participant and with the strong determination to include their achievements & accomplishments to their resumes. For the academic Year 2015-2016 we have organized FREAK’ 16 with the same enthusiasm and determination among the new set of student coordinators, student volunteers and faculty coordinator during Jan 14<sup>th</sup> - 16<sup>th</sup>, 2016

These fests are organized every year with the objective to provide platform for the students to showcase their talent with a competitive spirit. The event was successful enough to attract as many as 600 registrations from colleges Shah and Anchor, Vidyalankar Engg. College, Pune Vidyarthi Griha College of Information & Technology, V.J.T.I., Saboo Siddhique, Vivekanand College, Narayan Guru, Bunts, Acharya Western college, Sanpada etc for Three day fest which includes all the events.

The fest executed with a total of 23 events planned and organized at its best of quality. Focusing on the types of events to include in the fest was decided by fest coordinators keeping the interest and need of the Degree college student into consideration, with little emphasis on the fun full events behind the scene. The annual Freak festival is a prism, where Bhavna college students find an array of events and activities to participate in and get valuable recognition. The “Freak- Bring out the craziness in you” festival is undoubtedly the most sought after festival by Bhavna Trust college students.

THE first day many took part in events such as counter strike, NFS, FIFA (computer lab gaming event), Rangoli, Carom, Chess, Advertisement, Pikomania, Table-Tennis, Kho-kho, fun games like Twister, 60 sec, Snake & Ladder. Second day students took part in WEB Designing, Debate, Elocution, Brands & Logos and outdoor event, Badminton. In the third day programming events(C and C++), Movie mania fun game snake and ladder, volley ball etc. were conducted.

Bhavna College festival also attracted a large number of corporate sponsorship, as the festivals are an excellent platform for the leading brands to target the youth. The leading sponsors of FREAK-16 were SHAH & ANCHOR Kutchhi Engineering College, NIIT, Aptech and many more. The winners were encouraged with a cash prizes almost for all the events. Bhavna College feels proud to organize such a successful event and would like to convey thanks to the Principal and Management for their timely advice and cooperation for organizing successful Fest. Not to forget final year and pre-final year students of all Departments also deserve thanks for contributed their complete effort and participants for making FREAK - 16 Fest a great success.

‘FREAK’ definitely is the most interesting festival to attend and explore among college festivals in Mumbai.

**Ritu Sharma,**

HOD Department IT.



### SUNEHRE PAL .. down the memory lane of music

SUNEHRE PAL is a group of very enthusiastic music lovers who have been meeting at BHAVNA TRUST COLLEGE on the first Saturday of each month to listen to old Hindi film songs of the golden era of music (1945 - 1965). Memorable, tuneful songs are played to a select audience based on a pre-decided theme every month. Listeners are drawn from various parts of Mumbai and Navi Mumbai and they assemble at our college. This has been going on uninterruptedly since May 2009 when it was first conducted.

The idea of starting an old songs' listening session was quite unique and it was conceived in May 2009 by a group of three persons from different walks of life - Jayant Bhawsar (our college trustee), Balan V. Iyer (an academic consultant) and another person, all of whom having a strong passion for old Hindi film songs of the nostalgic era, when melody was queen. In the beginning, the main objective of these persons was to reach out to a maximum number of Chemburites having an ear for good music of the bygone era by organising periodical songs' listening sessions at a particular place and enjoy some soul-stirring, wholesome music. But music being such a leveller having a therapeutic effect, news of SUNEHRE PAL spread far and wide to difference parts of Mumbai.

As such a concept was quite unique, they had to work out the various modalities in respect of reaching out and announcing to a wider section of people. They went ahead with their cherished desire of promoting music of the golden era despite being somewhat apprehensive and sceptical in the beginning about the response. Getting a proper place was the first hurdle which was instantly solved by Mr. Jayant Bhawsar who offered the college premise of BHAVNA TRUST COLLEGE, DEONAR.

Balan had a personal collection of approximately 9000 old Hindi songs of vintage value, which he was willing to play on a month to month basis different themes to a select audience. The third person too helped out in terms of his quality inputs. The first session was held on May 9th 2009 and was attended by about 37 persons. The venue was a small hall with capacity of about 40. Subsequently with the help of friends and thanks to some favourable, extensive press coverage, this group expanded its reach to entire Mumbai and parts of Pune also. Today the average attendance at its session stands at a healthy 130 +. What was originally conceived as a Chembur group has now expanded to a Mumbai group. The venue



now is our college library which provides a congenial ambience in air-conditioned comfort and also professionally fitted music systems with high quality speakers for good acoustic effect.

At the sessions, after each song, the members share their memories, trivia and snippets about the songs. Over the past 80 months SUNEHRE PAL has had exclusive programmes on playback singers, music directors and lyricists. Programmes also featured songs picturised on actors and actresses of the golden period. Certain special themes like classical songs from films, songs on barsaat, yaad, raat, hawa and ghata were also featured.

SUNEHRE PAL has come a long way and as many as 800 persons have attended our sessions since the beginning. Some of the notable persons from the film fraternity who attended our sessions have been Gopal Sharma, Manohar Mahajan, Raju Bharatan, Music director Milind (son of Chitragupt), Ravindra Duggal (son of lyricist Rajendra Kishan), .....All of these persons had complimented SUNEHRE PAL for the 'musical' cause espoused by it. In addition to this, our informed audience have offered valuable suggestions and have been quite appreciative and involved in our pursuit for excellence.

## Bhavna Trust



## Picnic of year 2015-16

Picnic is a short trip taken for recreation and pleasure. Living in daily routine mind gets dull and one becomes weary. Then we need some diversion that refreshes our mind and helps us in forgetting the boredom of daily routine.

Our college has arranged a picnic for the students to 'Water Kingdom'. Water Kingdom is a well-known water park situated on the outskirts of Mumbai. On December 21st, 2015, Monday, we left for water kingdom early in the morning at 9.00 am. On the way we had a lot of fun, students played antakshari and dumb charades in the bus.

After two hours, we reached Water Kingdom. We took breakfast. Then students changed their clothes and got ready to enjoy in the water park. So we went to the wave pool. Students were having fun, they splashed water on one another. They were swimming, rain dancing, going into different water slides. We also took some photographs there. We had lunch at around 2.30 pm. After the lunch, students went back into pool for fun. Students left that place unwillingly, but took home lot of sweet memories that can be treasured forever and ever.....

In the evening, all of us left that place, by 6.00 pm.

The next day of picnic was very interesting and we will never forget it. It is still fresh in our mind.

**Pooja Gogri**  
Lecturer(IT)

---

---

## THE ABC OF HAPPINESS

Aspire to reach your potential	
Believe in yourself	
Create a good life	
Dream about what you might become.	
Exercise frequently	Praise performance well done
Forgive honest mistakes	Question most things
Glorify the creative spirit.	Regulate your own behaviour
Humor yourself and others	Smile often
Imagine great things.	Think rationally,
Joyful live each day	Undistant yourself
Kindly help others	Value life
Love one another	Work for common good.
Meditate daily	Exuberance for your existence.
Nurture the environment	Your choice: if not now- when?
Organize for harmonious action	Zzzz's, a good night's sleep.

**MISS. ANKITA .S. GAWADE**  
Lecturer : B.Com / BMS



## DISCIPLINE

The term 'discipline' means any training intended to develop moral character or produce a particular pattern of behavior accepted by afferent institutions and society. Discipline is a way of life. It is vital in happing one's personality. According to one school of thought, there are here forms of discipline i.e. expressionistic, impressionistic and self- discipline. If-discipline is usually considered to be the best form of discipline here in the term 'discipline' instead of standing as a rigid code of conduct obi strictly adhered to, denotes a process of normal growth and learning, of ways to monitor oneself. Self discipline is directly related to the concept of freedom and motivation. If a child is motivated and given the freedom to choose, discipline becomes a natural way of life. In modern times, discipline is misunderstood and misinterpreted by some students as rigid and fixed set of rules enforced by others and to be followed without any questions being asked:

They feel it is encroachment of their freedom and rights. Discipline is not a term which is limited to institutions like schools and colleges only. Neither is it a weapon or tool in the hands of adults to control the younger generation or in other words seeking unquestionable compliance. Discipline is neither suppression nor a means to assert one's authority rather it is intrinsic motivation in a person to control oneself, one's emotion, and desires and live in a uniform and orderly manner. That everything in this universe has to follow certain rules, the Sun rises in the East' and sets in the West, come what may, the cycle of seasons also follows a pattern, Night follows, dusk which follows day and dawn, thus, we humans are also governed by rules and following the same is another term for discipline. In schools, discipline can be exercised through the medium of morning assembly, time table, uniform, break, activities, various competitions and talk shows.

An example of discipline is also the happening of activities in the school premises in a particular order, right from promptness in reaching the school, wearing the prescribed uniform, abiding with the school rules, attending classes etc. etc. When one learns to conform to a particular set of rules he understands the importance and need to follow a particular pattern in life and how veering away from them can make life difficult and confusing, All successful people understand the importance of discipline in their lives and enjoy the fruits of success. An undisciplined person is prone to temptations and can easily fall prey to a lifestyle which could lead to his failure and doom. Discipline, thus! is inevitable as it gives direction to live life in a harmonious, and orderly way.

**Mrs. Binu Kurup**  
Lecturer - Commerce dept.



## Industrial Visit of Academic Year 2015-16

The industrial visit as a part of our college curriculum was planned as per circular dated 30<sup>th</sup> Nov. 2015. Total 48 college students of Business Management Studies, Commerce, Information Technology and Computer Science have participated. All participating students and college guides assembled at college in the morning at CST station. We had started our journey to Bangalore. All participants stayed in Hotel-Canary Sapphire (Four Star) in Bangalore city.

We all visited CDAC on 1<sup>st</sup> Dec 2015. A CDAC executive accompanied us and explains us about its working. They kept one seminar for all our students about fraud happening on net banking. That very helpful for our students to know about today's working environment of banking sector.

On 2<sup>nd</sup> Dec 2015 morning we had seen tipu sultan garden. After that tour operator took us to visited Trident Infosol Pvt.Ltd. A company executive accompanied us and explains us about its working and all the machines. It was very interesting to know how the controllers are manufactured in this company. They supply controllers to many companies like BHEL etc. We checked out from the hotel and boarded the buses for Mysore. On the way we did our South Indian lunch, everyone enjoyed. We had reached to Mysore at 6.00pm then we went to Vrindavan garden and Musical fountain show. In night all participants stayed in Hotel-United 21 (Four Star) in Mysore city.

On 3<sup>rd</sup> Dec 2015 morning we had visited Mysore Dairy. A company executive accompanied us and explains us about its working and all the machines. They show how they are collecting milk, packing and distributing to local public. They are producing many different products of milk in their unit like shrikhand, butter etc. After this we had visited Mysore palace.

On 4<sup>th</sup> Dec 2015 morning we had visited Mysore silk saree manufacturing unit. A mill executive accompanied us and explains us about its working and all the machines. It was very interesting to know how huge quantity of raw silk in yam production which are handled in systematic way. This company has various machineries for yam production, its dyeing, sorting and weaving. The executive explained us about the organization, working of the silk factory and business of company. He informed that silk products are exported to the extent of 80% and rests are sold in domestic market. He told they are using 18 carat gold and pure silk in each yam. From each yarn they will cut sarees. He had shown all the sections of the mill. The sarees dyeing fascinating as it was being done in huge quantity for multiple coloring. After this, the sarees is sorted out according to the color arrangement. They will send these sarees for packaging unit. These packed sarees are taken to the store for labeling and further transportation.

On 4<sup>th</sup> Dec. 2015, after lunch, we checked out from the hotel and boarded the buses for return journey. We return to the CST Station at 08:00PM on 05<sup>th</sup> Dec. 2015.

This industrial visit has broadened the knowledge and provided current information of real world to the students which would be certainly helpful in their carrier.

This was all possible due to foresightedness of college management and college principal. Our sincere gratitude and thanks to them.

**Anubha Maheshwari**  
Lecturer- B.com / BMS



**Successful students exhibit a combination of successful attitudes and behaviors as well as intellectual capacity. Successful students . . .**

**1. . . are responsible and active.**

Successful students get involved in their studies, accept responsibility for their own education, and are active participants in it! Responsibility is the difference between leading and being led. Active classroom participation improves grades without increasing study time. You can sit there, act bored, daydream, or sleep. Or you can actively listen, think, question, and take notes like someone in charge of their learning experience. Either option costs one class period. However, the former method will require a large degree of additional work outside of class to achieve the same degree of learning the latter provides at one sitting.

**2. . . have educational goals.**

Successful students are motivated by what their goals represent in terms of career aspirations and life's desires. Ask yourself these questions: What am I doing here? Is there some better place I could be? What does my presence here mean to me? Answers to these questions represent your "Hot Buttons" and are, without a doubt, the most important factors in your success as a college student. If your educational goals are truly yours, not someone else's, they will motivate a vital and positive academic attitude. If you are familiar with what these hot buttons represent and refer to them often, especially when you tire of being a student, nothing can stop you; if you aren't and don't, everything can, and will!

**3. . . ask questions.**

Successful students ask questions to provide the quickest route between ignorance and knowledge. In addition to securing knowledge you seek, asking questions has at least two other extremely important benefits. The process helps you pay attention to your professor and helps your professor pay attention to you! Think about it. If you want something, go after it. Get the answer now, or fail a question later. There are no foolish questions, only foolish silence. It's your choice.

**4. . . learn that a student and a professor make a team.**

Most instructors want exactly what you want: they would like for you to learn the material in their respective classes and earn a good grade. Successful students reflect well on the efforts of any teacher; if you have learned your material, the instructor takes some justifiable pride in teaching. Join forces with your instructor, they are not an enemy, you share the same interests, the same goals - in short, you're teammates. Get to know your professor. You're the most valuable players on the same team. Your jobs are to work together for mutual success. Neither wishes to chalk up a losing season. Be a team player!

**5. . . don't sit in the back.**

Successful students minimize classroom distractions that interfere with learning. Students want the best seat available for their entertainment dollars, but willingly seek the worst seat for their educational dollars. Students who sit in the back cannot possibly be their professor's teammate (see no. 4). Why do they expose themselves to the temptations of inactive classroom experiences and distractions of all the people between them and their instructor? Of course, we know they chose the back of the classroom because they seek invisibility or anonymity, both of which are antithetical to efficient and effective learning. If you are trying not to be part of the class, why, then, are you wasting your time? Push your hot buttons, is there something else you should be doing with your time?



## 6. . . . take good notes.

Successful students take notes that are understandable and organized, and review them often. Why put something into your notes you don't understand? Ask the questions now that are necessary to make your notes meaningful at some later time. A short review of your notes while the material is still fresh on your mind helps you learn more. The more you learn then, the less you'll have to learn later and the less time it will take because you won't have to include some deciphering time, also. The whole purpose of taking notes is to use them, and use them often. The more you use them, the more they improve.

## 7. . . . understand that actions affect learning.

Successful students know their personal behavior affects their feelings and emotions which in turn can affect learning. If you act in a certain way that normally produces particular feelings, you will begin to experience those feelings. Act like you're bored, and you'll become bored. Act like you're uninterested, and you'll become uninterested. So the next time you have trouble concentrating in the classroom, "act" like an interested person: lean forward, place your feet flat on the floor, maintain eye contact with the professor, nod occasionally, take notes, and ask questions. Not only will you benefit directly from your actions, your classmates and professor may also get more excited and enthusiastic.

## 8. . . . talk about what they're learning.

Successful students get to know something well enough that they can put it into words. Talking about something, with friends or classmates, is not only good for checking whether or not you know something, it's a proven learning tool. Transferring ideas into words provides the most direct path for moving knowledge from short-term to long-term memory. You really don't "know" material until you can put it into words. So, next time you study, don't do it silently. Talk about notes, problems, readings, etc. with friends, recite to a chair, organize an oral study group, pretend you're teaching your peers. "Talk-learning" produces a whole host of memory traces that result in more learning.

## 9. . . . don't cram for exams.

Successful students know that divided periods of study are more effective than cram sessions, and they practice it. If there is one thing that study skills specialists agree on, it is that distributed study is better than massed, late-night, last-ditch efforts known as cramming. You'll learn more, remember more, and earn a higher grade by studying in four, one-hour-a-night sessions for Friday's exam than studying for four hours straight on Thursday night. Short, concentrated preparatory efforts are more efficient and rewarding than wasteful, inattentive, last-moment marathons. Yet, so many students fail to learn this lesson and end up repeating it over and over again until it becomes a wasteful habit. Not too clever, huh?

## 10. . . . are good time managers.

Successful students do not procrastinate. They have learned that time control is life control and have consciously chosen to be in control of their life. An elemental truth: you will either control time or be controlled by it! It's your choice: you can lead or be led, establish control or relinquish control, steer your own course or follow others. Failure to take control of their own time is probably the no. 1 study skills problem for college students. It ultimately causes many students to become non-students! Procrastinators are good excuse-makers. Don't make academics harder on yourself than it has to be. Stop procrastinating. And don't wait until tomorrow to do it!

**RACHNA SINGH**  
LECTURER B.COM / BMS



## PEARLS OF WISDOM

**Success is not a matter of luck  
but a matter of design.**

**Winners don't get more opportunities  
but they create more opportunities.**

**Luck is what happens when preparation  
meets opportunity.**

**Your life is upto you. Life provides the canvas,  
you do the painting.**

**When you fail, learn from the experience  
don't identify with the experience.**

**The happiness of your life depends upon  
the quality of your thoughts.**

**There are no mistakes, only lessons  
A lesson is repeated until it is learned  
If you don't learn lessons, they get harder.**

**Confidence grows within us as we realise goals -  
so set and achieve small goals.**

**Behind every goal there is a purpose - discover goals.**

**Face your fears, see them as illusions  
in your mind and they will disappear.**

**Shailesh Arondekar**  
Lecturer BMS / B.Com Dept.



## અભ્યાસનું મહત્વ

સને ૧૯૪૫ના દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં જાપાનના હિરોશીમા અનેનાગાશાકી નામના બે શહેરો પર અણુબોમ્બ ઝીંકાયા. હિરોશીમામાં ફક્ત એક મિનિટમાં ૮૦,૦૦૦ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. ૭૦,૦૦૦ ઇજાગ્રસ્ત થયા. નાગાસાકીમાં પણ થોડી જ ક્ષણોમાં ૪૦,૦૦૦ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. ૪૦,૦૦૦ ઇજાગ્રસ્ત થયા. સેકડો ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તાર નાશ પામ્યો. વળી આજે પણ એ અણુબોમ્બની વિનાશક અસરને લીધે ત્યાં કેટલાક બાળકો ખોડખાંપણવાળા જન્મે છે.

આ ગોઝારા પ્રસંગથી સમગ્ર જાપાન હચમચી ઊઠ્યું. બરાબર એક માસ બાદ ઘટનાની સમીક્ષા કરવા માટે જાપાન સરકારની સંસદ મળી. સંસદમાં અમેરિકાના ઘૂણાસ્પદ પગલાને તમામ સાંસદોએ સખત શબ્દોમાં વખોડ્યા : અમેરિકા સમગ્ર દુનિયા પર સરમુખ્યતાર થવા બેઠું છે. આપણે બદલો લેવો જ પડશે. ઓછામાં ઓછો તેના બે શહેરો ઉડાવીશું ત્યારે જ આપણા અંતરને શાંતિ વળશે! લગભગ બધા જ સાંસદો અમેરિકાનો ખાત્મો બોલાવવાના પક્ષમાં હતા.

પણ.... ખૂબ હોશિયાર અને ભવિષ્યનું જોઈ શકે તેવા કેટલાક સાંસદોએ પોતાનો મત રજૂ કર્યો કે આમ કરવાથી વેર વધશે. બદલો લેવાની બીજી ઘણી પદ્ધતિઓ છે. ટેકનોલોજીમાં અમેરિકા આપણા પગ ચાટે તેવું ન કરી શકાય?

સમગ્ર ચર્ચાને અંતે માત્ર એક લીટીનો ઐતિહાસિક ઠરાવ કરવામાં આવ્યો - "We will give EDUCATION to each and every individual of japan." (આપણે જાપાનની પ્રત્યેક વ્યક્તિને શિક્ષણ આપીશું.)

આ નિર્ણય ફક્ત શબ્દોમાં જ ન રહ્યો. જાપાનની દરેક વ્યક્તિઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની અને દેશની અસ્મિતા જગાડવાનાં અદ્ભુત આયોજનો થયા. અને પરિણામ એ આવ્યું કે અમેરિકા આજે ટચૂકડા જાપાન પાસે ટેકનોલોજીની ભીખ માંગે છે. આ છે શિક્ષણનો કમાલ. શિક્ષણના એક નાનકડા નિર્ણયે જાપાનની કાયાપલટ કરી નાખી.

અને આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, આજે પણ આઈ.એ.એસ. કે જે આખા જિલ્લાનું સફળ સંચાલન કરી શકે, તેવી કક્ષાની ખૂબ જ નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ, જાપાનની કે.જી. અને પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષણાતંત્રમાં જોડાયેલ છે. જાપાનમાં ૧૫ વર્ષ સુધીના દરેકને શિક્ષણ ફરજિયાત છે. કારણ કે જાપાન જાણે છે કે શિક્ષણ વિના દેશનો ઉદ્ધાર જ નથી.

હવે, જાપાન કરતાં વસ્તીમાં, વિસ્તારમાં અને કુદરતી સંપત્તીમાં અનેક ગણા મોટા એવા આપણા દેશનો વિચાર કરીએ. ગાંધીજી જેના માટે કહેતા : આ માણસ મારા કરતાં ઓછામાં ઓછું છ મહિના આગળનું જોઈ શકે છે. અમેરિકાના લોકપ્રિય પ્રમુખ જ્હોન એફ. કેનેડી જેની મુલાકાતને પોતાના જીવનની સૌથી વધુ સંસ્કારદાયી

મુલાકાત ગણાવતા... તેવા આપણા ભારતના ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચાર્યે આઝાદીના ૨૫ વર્ષ પહેલાં ૨૪/૦૧/૧૯૨૨ના દિવસે જેલમાં પોતાની ડાયરીમાં એક ચોંકાવી દે તેવી વિગત લખી હતી કે, જ્યારે આપણે આઝાદ થઈશું કે તરત જ ચૂંટણીઓ, ભ્રષ્ટાચાર, અન્યાય, ધનની લાલસા વહીવટની બિનકાર્યક્ષમતા .. આપણા જીવનને નરક બનાવી દેશે. લોકો જુના ગુલામીવાળા શાસનને પસ્તાવા સાથે યાદ કરશે.

આ બધામાંથી છૂટવાની આશા માત્ર સર્વવ્યાપી શિક્ષણમાં જ રહેલી છે. શિક્ષણ વડે જ વિદ્યાર્થીમાં બાળપણથી જ સારી વર્તણૂક, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમ વિકસાવી શકાય છે.

આવા વિચારોથી જ ભારતની બંધારણની ૪૫મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે આવનારાં ૧૦ વર્ષમાં દૈનિક ૧૪ વર્ષ સુધીના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે આઝાદીનાં ૬૭ વર્ષ પછી પણ આ ૧૦ વર્ષ પૂરા થયા નથી.

દરેક બાળકોએ, કિશોરોએ આગસ છોડી, ટી.વી.-મોબાઈલ-વોટ્સ એપ, ફેસબુકમાં વધુ પડતો સમય ન વેડફતા, અભ્યાસ પાછળ ખૂબ જ મહેનત કરવી જોઈએ.

→ બાળકો કિશોરોની સાથે દરેક માતા-પિતાએ પણ દરરોજ કાંઈક નવું વાંચવું-વિચારવું-શીખવું-ભણવું જોઈએ. દરેક વડીલોએ પણ પોતાના ધંધા-વ્યવસાયનું હજુ ઊંડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, આગળ વધવું જોઈએ. અભ્યાસ એ દરેક ઉંમરની જરૂરિયાત છે.

→ ચીનમાં એક કહેવત છે : તમારે વર્ષનું સુખ જોઈતું હોય તો અનાજ વાવો. દાયકાઓનું સુખ જોઈતું હોય તો વૃક્ષો વાવો અને જિંદગીભરનું સુખ જોઈતું હોય તો વ્યક્તિને શિક્ષણ આપો.

ચાલો, વિદ્યાભ્યાસના કેટલાક અગત્યના ફાયદા અંગે જાણીએ.

### ૧. અભ્યાસ મનનું-બુદ્ધિનું ઘડતર કરે છે.

અભ્યાસના પ્રતાપથી જ મનુષ્યે ફોન, ફેક્સ, કમ્પ્યુટર ... વગેરેની શોધ કરી છે અને જીવનધોરણ ઊંચું કર્યું છે.

ન્યૂટન નામનો વૈજ્ઞાનિક સફરજનના ઝાડ નીચે બેઠો હતો. ઝાડ પરથી પડતું સફરજન જોઈ અચાનક જ તેને વિચાર ઝબક્યો: આ સફરજન નીચે જ કેમ પડ્યું? તેને નીચે પાડનાર નક્કી કોઈક હોવું જોઈએ. સખત અને સતત પરિશ્રમ કરી તેણે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ બહાર પાડ્યો. પ્લેન, રોકેટ વગેરે આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને જ ઊડે છે. અભ્યાસની વૃત્તિએ ન્યૂટનને વિશ્વના ઇતિહાસમાં અમર કરી દીધા.

ભગવાને બુદ્ધિ તો સૌને આપી છે, પરંતુ સંશોધનો કહે છે કે, સામાન્ય વ્યક્તિ મગજનો ઘણો ઓછો ઉપયોગ કરે છે. ભગવાને કૃપા કરી આપેલા અને આપણે ન વાપરતા એવા મગજનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરી જીવનનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાની કળા એટલે જ અભ્યાસ.

### ૨. અભ્યાસથી સમૃદ્ધિ મળે છે.

પ્રખ્યાત ધારાશાસ્ત્રી નાની પાલખીવાળાએ અભ્યાસ દ્વારા પોતાની બુદ્ધિનું ઘડતર કર્યું, તો તેની ફી મિનિટોમાં



ગણાતી. કેસ સાંભળવામાં ૧૮ મિનિટ થઈ હોય ને માર્ગદર્શનની ફક્ત ૨ મિનિટ જ થઈ હોય, તો પણ કુલ ૨૦ મિનિટના ૨૦,૦૦૦ રૂપિયા ચૂકવવા પડે.

અરે! દુનિયાની એવી કેટલીય વ્યક્તિઓ છે, જેનો પગાર મિનિટો લેખે ચૂકવવામાં આવે છે. આ છે અભ્યાસનો કમાલ.

**૩. અભ્યાસથી સમાજમાં ગૌરવવંતુ સ્થાન મળે છે.**

તમારા માતા-પિતાએ તમને ઘણીવાર કહ્યું હશે કે બેટા, અમે તો સંજોગોને લીધે બરાબર ભણી ન શક્યા, પરંતુ તમે બરાબર ભણી લેજો. ડોક્ટર, એન્જિનિયરો, વકીલો, શિક્ષકો વગેરેનું સમાજમાં ગૌરવભર્યું સ્થાન મેળવજો.

જગતની મહાન શોધો કરનાર વૈજ્ઞાનિકો, ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, વકીલો, શિક્ષકો વગેરેનું સમાજમાં ખૂબ ઊંચું સ્થાન છે. સમાજ તેમનું માર્ગદર્શન ઝંખે છે. સમાજ તેમને નમે છે.

**કેટલાક પ્રશ્નો :**

અભ્યાસમાં છટકબારી શોધવાવાળા, મહેનત કરવામાં આળસુ અને અભ્યાસમાં ઓછી રુચિવાળા ઘણા વ્યક્તિઓ કેટલાક નકામા પ્રશ્નો ઊભા કરી, અભ્યાસથી દૂર ભાગતા ફરે છે, પરંતુ એ અંગે ઊંડાણથી વિચાર કરવા જેવો છે.

**૧. ગમે તટલો અભ્યાસ કરીએ પણ નોકરી મળતી જ નથી.**

આ વાત ઘણે અંશે ખોટી છે. સારો અભ્યાસ કરનારને સારી તકો મળે જ છે. મુંબઈની આઈ.આઈ.એમ. માંથી ભણી બહાર નીકળનારનો પ્રથમ પગાર જ ૫૦,૦૦૦થી વધુ હોય છે. ડોક્ટર, એન્જિનિયરો, વકીલો, શિક્ષકો પાયલોટ બનનારને પૈસા માટે ફાંફાં મારવા પડતા નથી.

વળી, અભ્યાસની કોઈ પણ સામાન્ય લાઈનનો પણ જો ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો હોય અને મહેનત કરવાની તૈયારી હોય તો સારો પગાર મળે જ છે. પરંતુ, સારા પગાર માટે, સારી લાઈન માટે ખૂબ જ તનતોડ મહેનત કરવી પડે છે.

**૨. ઓછું ભણનાર પણ કરોડપતિ હોય છે.**

ઓછું ભણનાર કરોડપતિ થતા હોત, તો ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષામાં ગયા વર્ષે નાપાસ થનાર ૨,૧૧,૬૩૬ થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બધા જ કરોડપતિ બની જાત.

જો એવું જ હોત તો ઓછું ભણી અબજોપતિ બનેલ ધીરુભાઈ અંબાણીએ પોતાના બંને દીકરાને અમેરિકાની હાવર્ડ અને કૅમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કરવા શા માટે મોકલ્યા હશે ?

બધા જ ઉદ્યોગપતિઓ, ક્રિકેટરો, એક્ટરો પણ પોતાના દીકરા-દીકરીઓને સારામાં સારો અભ્યાસ કરાવે છે.

**૩. અમે ગમે તેટલું વાંચીએ, યાદ રહેતું નથી.**

આ પ્રશ્ન વ્યાજબી છે, પરંતુ આ માટે યાદશક્તિની વિવિધ પદ્ધતિઓ શીખવી પડે. બધું જ ભૂલી, એકાગ્રતાપૂર્વક સખત અને સતત મહેનત કરવી પડે.

ભલે તરતજ પ્રગતિ ન દેખાય, પરંતુ મહેનત કરનાર પોતાના સ્થાનથી તો જરૂર-જરૂર આગળ વધી શકે છે. પ્રામાણિકપણે કહો: દિલ દઈ મહેનત કરી હોય, તેનું પરિણામ ક્યારેય નથી મળ્યું ?

જેમના હાથમાં વિદ્યાની રેખા ન હતી, તેવા પાણિનીએ પણ પ્રેરણાદાયી પુરુષાર્થ કરી સંસ્કૃત વ્યાકરણ ક્ષેત્રે પોતાનું નામ અમર કરી દીધું છે.

**૪. અમારે અભ્યાસ કરવાના સંજોગો નથી. શું કરીએ ?**

આ દલીલ પણ પાયા વગરની છે. કારણ કે...

મુંબઈની જૂંપડપટ્ટીમાં રહેતો મંગેશ મહાસ્કર લાઈટના થાંભલા નીચે વાંચી મહારાષ્ટ્ર એસ.એસ.સી. બોર્ડમાં પ્રથમ નંબર લાવ્યો હતો.

નાવમાં બેસવાના પૈસા ન હોવાને લીધે તરીને રોજ નદી પસાર કરનાર લાલબહાદુર શાસ્ત્રી ભારતના વડાપ્રધાન બન્યા.

શાળામાં જેને ઠોઠ વિદ્યાર્થીની પદવી મળી હતી, તેવા એડિસન અને આઈનસ્ટાઈન વગેરે વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વ ફલકે કાંઈક કરી બતાવ્યું છે.

તામિલનાડુમાં રહેતા એક ભિખારીની છોકરીએ ભીખના પૈસા પર અભ્યાસ કરી તામિલનાડુ બોર્ડમાં પ્રથમ નંબર મેળવ્યો હતો.

ઉપરનાં દ્રષ્ટાંતોની વ્યક્તિઓ પાસે ભલે સંજોગો ન હતા, પરંતુ તેમની પાસે ભણવાનો, કાંઈક કરી દેખાડવાનો, આગળ વધવાનો અદમ્ય ઉત્સાહ હતો. અને ખરેખર, તો એ ધગશ-લગની જ જીવન વિકાસનો પાયો છે.

વિદ્યાર્થીની સ્કૂલ બેગ જોતાં “ ભાર વિનાનું ભણતર ” એ માત્ર ભ્રામક સૂત્ર જ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ જેમને આગળ વધવું હોય તેમણે સમયનું આયોજન કરી વાંચન કરવું જોઈએ. નહીં તો પછી પસ્તાતા પસ્તાતા ગાવાનો વખત આવશે કે :

**માંબાઈલે ગ્રહો મારો જમણો હાથ,  
ટીવીમાં ખૂંપી ગઈ મારી બંને આંખ!  
ઉઠવું તો ઘણું હતું મારે, પણ શું કરું?  
મારી તો કપાઈ ગઈ બંને પાંખ !!!**

લાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશ્વમાં કરોડો લોકો એવા છે કે જેને ખરેખર ભણવું છે, પણ ભણવા મળતું નથી, તો જેને ભણવાની અનુકૂળતા છે, એવા આપણે શા માટે આળસ કરવી ?

ઊઠો, જાગો, આળસ ખંખેરો. ભણવા માટે મંડી પડો. દુનિયામાં પોતાનું નામ રોશન કરો, અને એવા બનો કે જેને ક્યારેય ભણવા માટે ટોકવા ન પડે. કારણ કે, આજના સ્પર્ધાના યુગમાં ફક્ત એક-બે માર્ક જીવનની દિશા બદલી શકે છે. નિર્ણય તમારાં હાથમાં છે.

Vibha V. Tandel  
FYIT.



## INDUSTRIAL VISIT

Our college held industrial visit to Bangalore and Mysore which was unforgettable moment for us. Our journey started from 30<sup>th</sup> Nov at CST station. We were very excited to gather at 6:30 am. Our train timing was 8:05 am and happily enjoying we left from Mumbai.

On 1<sup>st</sup> of Dec we reached at Bangalore City Junction with a cold climate. We checked in at hotel Canary Sapphire. On same day we went to "C- DAC" which is Center for Development of Advance Computing where we collected information about IT Crimes and all about the Security Information and on the same day we also went to the famous temple called "Iscon Birla temple".

On 2<sup>nd</sup> of Dec we went to Lal Baug garden. It is a botanical garden. On the same day we went to Trident Infosys Pvt. Ltd. which supplies to B.H.E.L. after that we went to "Brindavan garden". It is also a botanical park and famous for fountains and also a dam. Then on the same day we reached to Mysore hotel United 21.

On 3<sup>rd</sup> of Dec first went to Mysore milk dairy named "NANDINI" and collected information as well. After that we went to "Mysore Palace" which was the tourist visit for us and also the "St Philomena church" which was very famous. After that even we went to the "Chamundi hill" and returned back to our hotel and we had our D.J party which was enjoyable.

On 4<sup>th</sup> of Dec we went to Silk factory and that was our last Industrial visit where we collected lots of information about Silk Sarees and after that it was time to return back to Mumbai.

And therefore we collected a luggagefull of information and unforgettable memories from Bangalore and Mysore,

**By Students**  
BMS, B.Com,CS, IT.



## Picnic To Water Kingdom

Our Picnic was on 21st December 2015 .It was my first picnic in Degree College Picnic. I was very excited for our college picnic. Because it was after a long time. We didn't have picnic in junior college. We were waiting for our college picnic. The night day before the picnic was sleepless. The choosen spot was fantastic. The amount asked for the spot was worth. About 120 students joined the picnic. we were asked to come on 8.30 a.m.

We had proper arrangement for sitting in the bus. We went singing and dancing in the bus and had lots of fun. We reached at 11.30am at the Water Kingdom. After reaching the first thing we took lockers and changed our dress, and then we had our Break fast and then rushed to the water park and we played on all 18 slides and 3 pools etc. And we enjoyed for 5 hours in water. 1 hour before leaving we had our lunch and we made many new friends from BMS and IT/CS. While coming home we enjoyed again in the bus with our new friends. We reached home @9.pm That day was my unforgettable day of my college life.

**By Students**

B.Com, BMS, CS, IT

---

---

## Believe in Yourself

"To be a Champion, you have to believe in yourself when nobody else will"

Abraham lincoln

The first Person who has to believe in your is YOU. You are the master of your own self. Believe in your powers, and your Potential, and in your own goodness. Always bear in mind that your own resolution to achieve success is more important than any other thing.

Believe in life and all that life has to offer you wake up every morning with the wonder of just being alive. Discover in each day, the magnificent, awesome beauty of the world. Don't be afraid to admit that you are less than perfect, this is the essence of humanity. Create your own rainbows. Be open to all Possibilities. ( Face the situations or problem instead of running away from them)

Believe in your dreams, do not dismiss them as worthless. To be without dreams is to be without hope, to be without hope is to be without purpose. Do not run through life so fast that you forget not only where you have been but also where you are going. Life is not a race but a journey to be savoured each step of the way. So Smile and let the sun shine through you.

Above all else, believe in God, Who is watching over you and believes in you. That is the basic of our existence.

**Mrs. Ashwini D. Kulkarni**

Lecturer : B. COM / BMS



## Good Thoughts

- \* The best answer to anger is silence.
- \* The darkness hour is just before the dawn.
- \* A good thing to give a person is a useful idea
- \* Depend not on Future, but on conduct.
- \* The two basic Processes of education are knowing and valuing.
- \* Work your way up or rust your way out.
- \* The only way to get best & an argument is to avoid it.
- \* You must have a lot of patience to learn to have patience.

**Shabna Premkumar.**

Lecturer : Science Dept.

## आयुष्य

आयुष्य म्हणजे काय असतं?  
 आयुष्य म्हणजे गुलाबाचं फूल असतं  
 कधी फुलतं, तर कधी कोमेजतं  
 आयुष्य म्हणजे काय असतं?  
 आयुष्य म्हणजे वाऱ्याची झळूक असते  
 दिशा मिळेल तशी वाहत असते.  
 आयुष्य म्हणजे काय असतं?  
 आयुष्य म्हणजे कच्चा दोऱ्यासारखं असतं  
 कधी दोर तुटेल सांगता येत नसतं  
 आयुष्य म्हणजे काय असतं?  
 आयुष्य म्हणजे आयुष्यासारखं असतं  
 जसं घडेल, तसं घडवायचं असतं!

अक्षता खैरे  
 F.Y.Bcom

## (नारी का महत्व)

### Importance of women



नारी तुम हो सबकी आशा  
 किन शब्दों में दूँ परिभाषा  
 नारी तुम हो सबकी आशा  
 सरस्वती का रूप हो तुम  
 लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम  
 बढ़ जाये जब अत्याचारी  
 दुर्गा- काली का रूप हो तुम  
 किन शब्दों में दूँ परिभाषा  
 नारी तुम हो सबकी आशा  
 खुशियो का संसार हो तुम  
 प्रेम का आगार हो तुम  
 घर आँगन को रोशन करती  
 सूरज की दमकार हो तुम  
 किन शब्दों में दूँ परिभाषा  
 नारी तुम हो सबकी आशा

ममता का सम्मान हो तुम  
 संस्कारो की जान हो तुम  
 स्नेह प्यार और त्याग की  
 इकलौती पहचान हो तुम  
 किन शब्दों में दूँ परिभाषा?  
 नारी तुम हो सबकी आशा  
 कभी कोमल फूल गुलाब सी  
 कभी शक्ति के अवतार सी  
 नारी तेरे रूप अनेक  
 तु ईश्वर के चमत्कार सी  
 किन शब्दों में दूँ परिभाषा ?  
 नारी तुम हो सबकी आशा

**Priti Swain**

SyCS



## परिश्रम का धन

बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर नामक गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। चारों बेटे बड़े ही आलसी और निकम्मे थे। किसान की भूमि बड़ी ही उपजाऊ थी। मेहनत करने पर खेत से अच्छी उपज प्राप्त होती थी। जब तक किसान जवान था, उसमें दम और ताकत थी तब तक वह मेहनत द्वारा अच्छी फसल उगाता रहा। पर अब वह बूढ़ा हो चला था, अब उसे अपने खेतों में फसल उगाने के लिए मदद की जरूरत थी। पर किसान के आलसी और नालायक बेटे खेती में कोई रुचि नहीं लेते थे। इसलिए खेतों की उपज घट गई थी। बेटों के आलसीपन से किसान बहुत दुःखी और चिंतित रहता था।

इसी दुःख और चिंता के कारण किसान बीमार रहने लगा। एक दिन उसे लगा कि उसके जीवन की आखिरी घड़ी निकट आ गई है। तब वह मृत्युशय्या पर पड़े पड़े अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, “मैंने खेत में धन गाड़ रखा है, मेरे मरने के बाद तुम चारों उसे खोद कर निकाल लेना।” इतना कहने के बाद किसान ने दम तोड़ दिया।

पिता के क्रियाकर्म के बाद उन चारों भाइयों पर खेत से धन निकालने का भूत सवार हो गया। उन्हें यह नहीं पता था कि खेत के किस कोने में धन गाड़ रखा है। इसलिए धीरे-धीरे सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी धन नहीं मिला। उन्होंने अपने स्वर्गवासी पिता को खूब कोसा।

खेत को खुदा हुआ देखकर बड़े भाई ने कहा कि, “क्यों न हम इस खुदे में गोहूँ के दाने बो दे।” सभी भाई इस पर सहमत हो गए। खेत खोदने के कारण उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ गई थी इसलिए खेत में गोहूँ की अच्छी फसल हुई। गोहूँ की दानेदार बालिका को देखकर बेटे फूले न समाए। इस वर्ष गोहूँ की फसल से काफी धन प्राप्त हुआ। अब उन्हें पिता की बात का अर्थ समझ में आ गया। वे समझ गए कि यह अनाज ही खेतों में गड़ा हुआ धन था। जो परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सका। इस प्रकार परिश्रम के महत्व को समझकर चारों भाइयों ने मन लगाकर खेती करने का निश्चय किया।

सीख: सचमुच परिश्रम ही सच्चा धन है। आलसी और निकम्मे लोगों को इसी प्रकार उन्नति के मार्ग पर लाया जा सकता है।

Arun Kanojiya

XI C



## माँ की ममता

बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में दो स्त्रियाँ रहती थी। दोनों पड़ोसी थी। आस-पास ही रहती थी। उसमें से एक स्त्री धूर्त, चालाक और झगडालू थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। दुसरी स्त्री बड़ी कोमल स्वाभाव की तथा मिलनसार थी। उसका तीन महीने का बेटा था। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी तथा उसका दिन-रात ध्यान रखती थी। निः संतान स्त्री संतानवाली स्त्री से बहुत ईर्ष्या करती थी।

एकबार संतानवाली स्त्री बच्चे को घर के झूले में डाल कर किसी काम से बाहर गई। अवसर पाकर निः संतान स्त्री ने बच्चे को झूले से निकाल कर चुरा ले गई और नगर में कहीं ओर जाकर रहने लगी। इधर किसी को कुछ पता नहीं चला।

बच्चे के लापता हो जाने पर बच्चे की माँ का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उसने देखा कि जिस दिन से उसका बच्चा लापता है, उसी दिन से उसकी पड़ोसन भी लापता है। उसे यकिन हो गया कि उसके बच्चे को निः संतान स्त्री ने ही चुराया है। अब वह दिन-रात उसका पता लगाने लगी। कुछ दिनों के बाद उस संतानवाली स्त्री ने उस पड़ोसन का पता लगा लिया। बच्चा उसी के पास था। संतानवाली स्त्रीने उससे अपना बच्चा माँगा। चोर स्त्री ने कहा, “ यह मेरा बेटा है मैं न दूँगी, जो चाहे कर लो।” दोनों में खूब झगडा हुआ। तब आस-पास के लोगों ने दोनों को न्यायालय जाकर झगडे का निपटारा करने की सलाह दी।

दोनों स्त्रियाँ न्यायालय पहुँची। न्यायाधीश के सामने दोनों ने उस बच्चे को अपना पुत्र बताया। बेटे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश सोच में पड गए। उनके लिए फैसला सुनाना कठिन हो गया। कुछ सोचने के बाद उन्होंने सिपाही को आज्ञा दी कि, इस बच्चे के दो बराबर टुकडे करो और दोनों में बाँट दो।

न्यायाधीश की बात सुनकर निःसंतन स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की असली माँ चिल्ला उठी हुआ आप बच्चे के टुकडे मत किजीए। चाहे तो उस स्त्री को सौंप दिजीए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों स्त्री में से सच्ची माँ कौन है। उन्होंने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंपने का आदेश दिया।

सीख : माँ की ममता निःस्वार्थ होती है, उसका कोई मोल नहीं होता। अंत में सत्य की ही जीत होती है।



## My DREAM

"You'll never achieve your dreams if they don't become goals'

So dream high and try getting your dreams come true because the fulfillment of a dream, it is a great feeling and is indeed a great success to have our dreams turn into reality let us hope that each of our dream world are much more better and happier than the world that we live in now.

"Your dreams come true when you act to turn them into realities."

So I am hoping a best dream by everyone to have a aim in life to achieve a great career and success.

**Hitesh H. Sota**

T.Y. BCOM.

## Hard work And Dedication

Some people dream of success while others wake up and toil hard for it' Education continues and evolves for retirement and better achievement till eternity' Hard times are faced by everyone sometimes or other. And God has often turned difficulties into blessing !

So leave no stone unturned leave no book unread.  
Work hard and achieve your best !

**Mrs. Sunita Sharma**  
Lecturer : Science Dept.



## Days of Fun

Student enter's the College with hope friendship, education, improvement of his personality, thinking ability, character, psychology to achieve his goals.

Student must meet each other in class and find the place where they belongs i.e. friend and their teachers as guardians which shows the way of living, the path to achieve our goals, development of skills and knowledge. They are the structure of revolution to life and creates passion to succeed our dreams.

Rafiq Paswan

FYIT

## My Father

My Father is totally divine  
You may not have one like mine.  
Fearless he can be at times  
And he can even make up silly rhymes.  
Though at times he can be cross,  
However he also lets me be the boss.  
Everyday I see him leave at day's crack.  
Reward is to see him come smiling back.

M-is the million things she gave me.  
O-means only that she's growing old.  
T-is for the tears she shed to save me.  
H-is for her heart of purest gold.  
E- is for her eyes with love & light shining  
R- means right, and right she'll always be

Happy Mothers day

Ayesha Mohd Sajid  
S.Y.Bcom



## How to be successful

Regardless of how old you are, where you live, or what your career goals are, everybody's ultimate goal in life is to be happy and successful.

### Achieve External Success

1. Identify your passions. Before you can achieve success, you will have to define what success means to you. While it may take years to realize what you want to do with your life, identifying your passions, interests, and values will help you set goals and give your life a sense of meaning. Ask yourself the following questions:

- What do you want your legacy to be?
- How would you like to be remembered by others?
- How do you want to make your community a better place?
- What are your subjects of interest in your life?

2. Make a list of your goals, and what you might do to achieve them. Be sure to address both short-term and long-term goals; try to think beyond financial/career goals. Consider which subjects you enjoyed studying in school, and why. This can help give you an idea of what you may be best at or more interested in.

3. Live purposefully. In order to achieve your dreams and be the person you want to be, you will have to start paying attention to your actions. Ask yourself, is what I'm doing going to lead me to where I want to be in life?

- If you find yourself constantly bored, daydreaming about the future or past or counting down the minutes until the day ends, it is probably because you feel disconnected from what you're doing. Consider changing careers or majors to a field that you care about but remember that it could mean changes you are not thinking of. Does that job pay enough to support yourself? Is it something you might get bored of eventually? Do I really want to commit to that job?
- Cherish your time. Try to spend your free time doing things that you enjoy doing, rather than wasting time. For example, rather than spending your weekends watching television, spend them partaking in your hobbies or spending time with loved ones.
- Remember that the concept of "wasted time" is relative. Not everything you do has to be productive in the conventional sense, but it should be engaging and enjoyable.

4. Be educated. Education gives you the knowledge, skills, and credibility to achieve your maximum potential. In terms of financial success, statistics have shown that the more education you have (i.e. the higher degree you achieve), the



more money you are likely to make.

5. **Manage your finances.** Learning how to manage your money will help ensure your financial stability over time, regardless of your income.
  - Keep track of your expenses. Review your bank statements often and notice where you spend your money. If you do your banking online, be sure to keep personal records as well. This will help you prevent over-spending and ensure that your bank statements are correct.
  - Understand your income. When calculating your income, be sure to take into account the federal, state, and social security taxes that will be deducted from your gross pay. The resulting number is your net pay, which is what you end up taking home with you.
  - Prioritize spending. Your first priority should be spending money on basic necessities like food, shelter, and clothing. Don't spend money on luxuries like expensive clothes, cars, or vacations until you have first satisfied your basic necessities. Be honest with yourself and differentiate between your basic needs and your luxuries.
  - Save money. Every month, you should deposit some of your money into a savings account. Consider asking your employer to directly deposit a portion of your income into your savings account.
  
6. **Manage your time.** Putting off important tasks until the last minute can cause you unnecessary stress, and increases the likelihood of errors. Manage your time so that you have enough time to complete a task effectively.
  - Use a paper or electronic planner to help keep you organized throughout the day, week, and month.
  - Make a list of all the things you need to do in a given day, and check off each task as you complete it. This will help you stay organized and motivated.

## **Achieve Internal Success**

1. **Enjoy the present moment.** If you are constantly dwelling on the past or daydreaming about the future, you are missing out on the present moment. Remember that the past and the future are simply illusions, and that real life takes place here and now.
  - Start paying attention to negative thoughts so that you can learn to silence them and enjoy the present moment. If a negative thought arises in your head, then acknowledge it, label it a negative thought, and then let it fade away.
  - Get in the habit of paying attention to the small details around you. Appreciate the feeling of the sun on your skin, the sensation of your feet walking on the ground, or the artwork in the restaurant you are eating in. Noticing things like these will help you silence a rambling



mind and appreciate every moment.

2. Don't compare your own life to other peoples' lives. Unfortunately, many people measure their own success by comparing it to the success of those around them. If you want to feel accomplished and happy, you will have to stop comparing your life to other peoples' lives.

- Many people have the tendency to compare the low points of their own lives with the high points of other peoples' lives. Remember that no matter how perfect somebody's life may seem, behind closed doors everybody deals with tragedy, insecurity, and other difficulties.
- Rather than comparing yourself with people who are "better off" than you, think about all of the people who are homeless, chronically ill, or living in poverty. This will help you appreciate what you have rather than feeling sorry for yourself.

3. Count your blessings. No matter how much you achieve in life, you will always feel unhappy if you constantly focus on what you don't have. Instead, devote time every day to appreciating the things you do have. Think beyond material items; appreciate your loved ones, and remember happy memories.

4. Look after your health. A healthy body supports a healthy mind. Eat a balanced diet and ensure that you aren't lacking in any necessary nutrients. Establish the cause of any problems you may experience, such as a lack of energy or a lack of concentration and deal with them by discussing with a doctor, nutritionist and related health professionals. Get plenty of exercise too but align it with what you love to do rather than what you feel you have to do but dislike.

**ROOPA KULKARNI**  
Lecturer IT/CS



## Zindagi

Life ke Har pal ko Khushi se Bitao  
Rone ka Time kahan sirf Muskurao  
Chahie ye Duniya kahie pagal ya Awara  
Bas yaad rakhna zindagi na milegi dobara

Jis din Aap jami par aaye  
wo Asman b khub roya tha,  
Akhir uska ansu thamta bhi kaise  
Usne hamare liye Apna sabse  
pyaar sitara jo khoya tha.

Taqdeer Na jaise chahia vaise dhial gaye hum,  
Bafut sambhal ke chale fir bhi fisal gaye hum,  
Kisi ne vishwas toda toh kabhi kisi ne dil,  
Aur logon ko lagta hai ki badal gaye hum!

## Hai ye Zindagi

Lamho se bani hai ye Zindagi,  
Sapno se sazi hai ye Zindagi,  
Labzo me bayan ki hai ye Zindagi,  
Jaan le ab yahi hai ye Zindagi !



A daughter is the  
Happy memories of  
the past, the joyful  
moments of the  
Present and the  
hope and promise of  
the future

Ayesha Mohid Sajid  
S. Y. Bcom

Zindagi to sabhi ke liye eak Rangeen Kitaab hai  
Fark bas itna hai ki koi har panne ko dil se padhi rakhia hai,  
Aur koi dil rakhne ke liye panne palat rakhia hai

When I close my eyes I see  
you for what you truly are ...U  
look Angel  
When I look in the mirror,  
I get a Reflection, Which is you...  
You are Everything for me

I  
Love You  
Mom



## Deep Web A.K.A.Darknet

The deep web, Deep net, Invisible web or hidden web are search terms referring to the content on the world wide web that is not indexed by standard search engines.

Now 3 questions usually arise most predominately when you hear the above word

- 1) what is it how do you access it
- 2) How deep is deep web
- 3) what are the things you can do if you access the deep web

Very important deep web is different from dark net deep web- Encrypted network that exists between tor servers and their clients darknet- Content of database and other web services that for on reason of another is not addressed by conventional search engine

In order to access those web sites which usually have the onion extension you need a special Program called Tor or p2p or free net. These websites need to be accessed anonymously or else you would be on the hit list of authority. So what these special softwares basically do usually traffic is routed through a single node provided by it routes traffic through multiple nodes resulting in hiding of your ip address.

2) How big is deep web- it is bigger than deal net (The net that we conventionally use) It makes 96% of the internet

3) What you can do in dark web of deep net

### **The possibilities are infinite**

- 1) suppose you want to anonymously use about a specific topic it can be done
- 2) want to go up against a government organisation anonymously it can be done



## हसा! हसा! हसा!

हसत जगावे हसत मरावे हे तर माझे गाणे.....  
रोते हुए आते है सब ,हँसता हुआ जो जाएगा.....

“हसणे” या नैर्सिंग क्रियेविषयीची ही गाणी आपल्या आयुष्यात खुप महत्व सांगून जातात  
“हसणे” या छोट्याश्या कृतीचा किती परिणाम होतो, हसणारा चेहरा प्रत्येकालाच आवडतो. सतत हसतमुख रहाणे हाच मैत्रीच्या नात्यातला दुवा म्हणता येईल कारण हसण्यानिच तर मित्र बनवले जातात.  
नवजात बालक जसे त्याच्या जन्माची चाहुल त्याच्या रडण्याने व्यक्त करते तसेच जसे त्याची वाढ होते त्यावेळी खुदकन हसणे हेच त्याला शोभून दिसते.

हसा आणि लड्डू व्हा, हसा आणि आरोग्यदायी व्हा, या मंत्राचा सर्वत्र वावर आढळतो या मागील शास्त्रीय कारण पण तसेच आहे. हसताना आपल्या १४ स्नायुंवर ताण पडतो तर राग व्यक्त करण्यासाठी ७२ स्नायुंवर ताण पडतो.

हसण्यामुळे ताणतणाव निर्माण करणारे संप्रेरक कॉर्टिसॉल व इपिनेफ्रिन यांचे प्रमाण घटविले जाते. ११ डिसेंबर १८४४ मध्ये होरसवेल आणि त्यांचे असिस्टंट यांनी दात मुळापासून काढण्यासाठी भूलीचे औषध म्हणून नायट्रस ऑक्साईड या वायूचा वापर केला या वायूला हसवणारा वायू (Laughing gas) असे म्हणतात. दात काढताना होणाऱ्या वेदनांची तीव्रता कमी करण्यासाठी हसत हसत रुग्णांचा प्रतिसाद मिळविला जात असे.

हसताना मेंदू एन्डॉर्फिन स्रवण करतो. बऱ्याच वेदना कमी करतात. हसणे या क्रियेमुळे अँटीबोडी तयार करण्यासाठी पेशीला प्रवृत्त केले जाते. आपली प्रतिकार क्षमता बळकट केली जाते.

या संगणकीय युगात आपला रोबोट बनवून हसणे ही नेसर्गिक क्रिया कृत्रीम बनवून ठेवणे खुप धोक्याचे आहे. हसण्यासाठी क्लबमध्ये जाणे, स्वःताला वेगळ्याच विश्वात गुंतवणे यापेक्षा हसणे, हसत रहाणे, दुसऱ्याला हसवत रहाणे आपल्यासाठी खूप योग्य व आरोग्यदायी असेल!!

दुसऱ्याला हसण्यापेक्षा त्याला हसविणे कधीही चांगले खरे ना!!!

मग हसा बर छानसं!

सौ. माधवी दीपक जोशी  
(रसायनशास्त्र विभाग)



## Teachers

A good teacher,  
like a good entertainer,  
first must hold his audience attention,  
then he can teach his lessons

The mediocre teacher, tells  
The good teacher demonstrates  
the great teacher inspires,

T- Talented that you surely are,  
E- Explaining so patiently  
A- Ability to make the class fun,  
C- Correcting us when we are wrong  
H- helping us to do our best  
R- rare there is only one of you

So thank you special teacher,  
we think you're  
great too!

Thank you Teachers  
Thank you for all the,  
Hours you Spend,  
Attention you give,  
Needs that you tend,  
Knowledge you pass on,  
Your Special touch,  
Offering guidance,  
Undaunted by much,  
Time you spend Planning,  
Efforts you Make,  
Angles to learning,  
Chances you take,  
Here's to our teachers,  
Each one a gem,  
Recognized now, we,  
Salute them !

**Shifa Khan**

S.Y.Bcom



## Mothers

My Mother my Friend so dear,  
Throughout my life you are always near,  
A tender smile to guide my way,  
You're the sunshine to light my day,  
**HAPPY MOTHER'S DAY**

**I LOVE YOU MOM!**

---

Har din ye dil akela hota hai,  
Har ek pal uske bina adhura hota hai  
Koiyaad karta hai, koi bhula deta hai,  
par har ek friend zaroori hota hai.

My best friend is the only person in the  
world who could stop me from crying.

That awesome moment when you're telling a lie,  
and your best friend notices and joins you.

Good friends will share the umbrella,  
Best friends will still and yell :

**RUN LOSER RUN!**

**Shifa Khan**  
S.Y.Bcom



## मानव सेवा ही सच्ची सेवा है।

सेवा का अर्थ है। किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना। प्रायः लोग स्वार्थभाव से सेवा करते हैं। सच्ची सेवा निःस्वार्थ होती है। दूसरों का दुःख दूर करना सेवा का उद्देश्य है।

दीन - दुखी जन हमारे समाज के अंग हैं। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वे समाज से ही अपेक्षा करना समाज का कर्तव्य है। संसार के सभी धर्मों में पिछड़े लोगों की सेवा को सच्चा धर्म बताया गया है।

मानवसेवा विविध रूपों में की जा सकती है। धनीवर्ग निर्धन विद्यार्थियों की पढाई में आर्थिक सहायता कर सकते हैं। निर्धन रोगियों को उनके इलाज का खर्च दिया जा सकता है। निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना सबसे सुंदर मानवसेवा है। धन के अभाव से विवाह नहीं हो पाते। आर्थिक सहायता देकर उनके हाथ पीले करवाना बहुत पुण्य का कार्य है।

हमारे महापुरुषों ने हमारे सामने मानवसेवा का महान आदर्श रखा है। गांधीजी ने दीन-दलितों को गले लगाया और उनकी सेवा की। प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे ने अपना सारा जीवन कुछ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया। स्वर्गीय मदर टेरेसा का निर्मल हृदय सस्थान मानवसेवा का उत्तम उदाहरण है।

मानव ईश्वर का सर्व श्रेष्ठ सृजन है। दीन-दुखियों के चेहरों पर खुशी लाकर हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मानवसेवा ही सच्ची सेवा है।

**Sunil Bokadiya**

XI C

बार - बार ब्रेक लगाने से  
बार - बार क्लच दबाने से,  
और स्पीड बढ़ाने से,  
गाड़ी पर नहीं रहता है कंट्रोल।

गाड़ी सर्कीसींग नहीं कराने से,  
रेड लाईट पर इंजन चलाने से,  
गाड़ी पर बहुत वजन बढ़ाने से,  
बजट पर नहीं रहता है कंट्रोल।

गाड़ी में जब पेट्रोल भरवाएँ,  
टंकी हमेशा फुल करवाएँ  
और गाड़ी धूप में न लगाएँ।

पैदल से रफ्तार का इतिहास है पुराना  
फिर इतिहास को नहीं है दोहराना,  
तो पेट्रोल हर कीमत पर बचाना।

**Fuellish na bane Petrol  
Save Karen.**

**Prashant Yadav**

SYIT



## नारी का सन्मान

नारी का सन्मान सदा होना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है। यत्र पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता (भावार्थ - जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।) किंतु आज हम देखते हैं कि नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यह बहुत चिंताजनक बात है। आईए देखते हैं हम नारी का कैसे सन्मान करें

नारी का सबसे पवित्र रूप माँ के रूप में देखने में आता है। माता रानी जननी माँ को ईश्वर से जन्मदात्री भी नारी ही रही है। माँ देवकी (कृष्णा) तथा माँ पावती (गणपती) कार्तिकेय के संदर्भ में हम देख सकते हैं। किंतु बदलते समय के हिसाब से संतानों ने अपनी माँ को महत्व देना कम कर दिया है। यह चिंताजनक पहलू है। अब सब धन लिप्सा व अपने स्वार्थ में डूबते जा रहे हैं। (सिर्फ) मेरी बीबी व मेरे बच्चे यही आजकल परिवारकी परिभाषा रह गई है। फिर बुजुर्ग माता-पिता की सेवा कौन करे? यह सवाल खड़ा होता है।

अगर आजकल की लड़कियों पर नजर डाले तो हम पाते हैं कि ये लड़कियां आजकल बहुत बाजी मार रही हैं। इन्हें हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। विभिन्न परिक्षाओं की मेरिट लिस्ट में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। किसी समय इन्हें कमजोर समझा जाता था किंतु इन्होंने अपनी मेहनत और मेधा शक्ती के बल पर हर क्षेत्र में प्रवीणता अर्जित कर ली है। इनका इस प्रतिभा का सन्मान किया जाना चाहिए।

नारी का सारा जीवन पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में ही बीत जाता है। पहले पिता की छत्रछाया में उसका बचपन बितता है। पिता के घर में भी उसे घर का कामकाज करना होता है तथा साथ ही अपनी पढाई भी जारी रखनी होती है। उसका यह क्रम विवाह तक जारी रहता है। उसे इस दौरान घर के साथ साथ पढाई-लिखाई की दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। जब की इस दौरान लड़कोंको पढाई-लिखाई के अलावा कोई काम नहीं रहता है। कुछ नवयुवक तो ठिकसे पढाई भी नहीं करते हैं। जबकि उन्हें इसके अलावा और कोई काम ही नहीं रहता है। अतः विवाह पश्चात तो महिलाओं पर और भी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। पती - सास - ससुर - देवर - ननद की सेवा के पश्चात उनके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता है। वे कोल्डू के बैल की भांती दिनभर घर-परिवार में ही खटती रहती हैं। संतान के जन्म के बाद तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। घर-परिवार, चौके चुल्हे में खटने में ही एक आम महिला का जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार वे अपने अरमानों का भी गला घोट देती हैं घर-परिवारकी खातीर उन्हें इतना समय भी नहीं मिल पाता है वे अपने लिए भी जिए। परिवार की खातीर अपना जीवन होम करने में भारतीय महिलाएं सबसे आगे हैं।

बच्चों में संस्कार भरने का काम माँ (नारी) द्वारा ही किया जाता है। यह तो हम सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती हैं। माँ के व्यक्तित्व कृतित्व का बच्चों पर साकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का असर पड़ता है।

आजकल महिलाओं के साथ अभद्रता की पराकाष्ठा हो रही है। हम रोज ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मिडीया में पढ़ते हैं कि महिलाओंके साथ छेड़छाड़ की गई या सामुहिक बलात्कार किया गया। इसे नैतिक पतन ही कहा जाएगा। शायद ही कोई दिन जाता हो, जब महिलाओं के साथ की गई अभद्रता पर समाचार ना हो। इसका प्रमुख कारण यह है की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मिडीया में दिन बदिन अश्लीलता बढ़ती जा रही हैं। इसका नवयुवकों के मन मस्तिष्क पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। वे इसके क्रियान्वयन पर विचार करने लगते हैं। परिणाम होता है दिल्ली गैंग रेप जैसा जघन्य और घृणित अपराध

अंत में यही कहना ठीक रहेगा कि हम हर महिला का सन्मान करें क्योंकि दुनिया की आधी आबादी के बलबूते पर ही आदमी यहां तक आया है। उसे ठुकराना नहीं चाहिए। जिस सीढी (महिला) के बलबूते पर आदमी यहां तक आया उसका तिरस्कार अपमान कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी दुर्गा व लक्ष्मी आदि का यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर हम नारी का अपमान करेगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नारी को हमेशा उच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए।

Nisha Chindaliya

XI C



## स्वच्छभारत

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा माहात्म गांधी ने स्वच्छता मिशन यह अभियान २ अक्टुबर को माहात्मा गांधी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार कि ओर से २०१५ अधिकारिक तौर पर सुरु किया गया था। नई दिल्ली जो की माहात्मा गांधी का आंतिम संस्कार का स्थान है। वही शुरु किया गया था। भारत सरकार २ अक्टुबर २०१९ तक भारत की स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश रखी है जोकी माहात्मा गांधी की १५० वी जंयती होगी।

यह एक जिम्मेदारी है। देश को स्वच्छ देश बनाने के लिए हर भारतीय नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है। एक अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर पर लोगो ने पहल की है। शिक्षक और स्कूल के छात्र इसमे पूर्ण उत्साह और उल्हास के साथ शामिल है। और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का प्रयोग कर रहे है। और इस में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वा शुरु की गई एक स्वच्छता अभियान है। यह एक स्वच्छ भारत की कल्पना की दृष्टी से लागु किया गया था। भारत की एक स्वच्छ देश बनाना माहात्मा गांधी का एक सपना था। इसीलिए इसे माहात्मा गांधी की जंयती पर भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया।

माहात्मा गांधी ने अपने वक्त मे नारों द्वारा और लोगो को प्रेरित करके स्वच्छ भारत की कोशिश की थी। किन्तु लोगो की कम रुची के कारण असफल रही। लेकिन कुछ वर्ष के बाद इस स्वच्छ भारत के मिशन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वा आरंभ किया। यह माहात्मा गांधी की १४५ जंयती पर अक्टुबर २०१४ मे शुख किया गया था। यह भारत के सभी नागरिको के लिए बहुत ही बडी चुनौती थी। यह तभी संभव है जबकी भारत मे रहने वाला व्याक्ति इस आभियान के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और इसे एक सफल मिशन बनाने के लिए एक साथ होकर पुरा करने की कोशिश करे। प्रसिध्द भारतीय हस्तियों ने इसकी पहल की और पूरे भारत से एक जागरुकता कार्यक्रम के रुप मे इसका प्रसार किया। इस मिशन का उद्देश सभी ग्रामीण और शहरी छात्रों को कवर करना है। ताकि दुनिया के सामने हम एक आदर्श देश का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। मिशन के उद्देश्यो मे से कुछ उद्देश्य है। और खुले मे शौच समाप्त करना। अस्वास्थ्यकर शौचायलो को फ्लश शौचालय मे परिवर्तित करना।

## स्वच्छभारत और निर्मल भारत

Ashish Gupta

XI C



## सच और झूठ

जिन्दगी हर पल नये रंग दिखाती है  
कई सपने सँवारती कई तोड़ जाती है  
कई सारे सबक हमें सीखा जाती है ।

आगे क्या करना, न करना बताती है ।  
छोटी-छोटी बातों का ज्ञान कराती जाती है  
सच और झूठ में फर्क भी बताती है ।

जीवन में कई बार दुविधा के पल होते हैं ।  
जब हम दोराहे पर अकेले खड़े होते हैं ।  
एक राह सच्ची और दुजी झूठ से भरी होती है ।

सच का रास्ता लंबा कठिनाई भरा होता है ।  
झूठ का रास्ता आसान प्रलोभन भरा होता है  
उस वक्त हमारे संस्कारों की परीक्षा होती है ।

सच का रास्ता अपनाते हैं कष्ट जरूर होता है ।  
पर मन में सुकून और खुद पर गर्व होता है  
झूठे का रास्ता मखमली पर  
अंत में दर्द देता है ।

तुम क्या चुनते हो यह तुमको सोचना है ।  
कृत्रिम बल्बों से जगमगाती रंगीन रात चाहिये ।  
या सत्य की राह चलकर रंगों भरा इंद्रधनुष चाहिये ।

**Komal R. Kawale**

XI C



## हमारी माँ

हमारी माँ हम को सब से अच्छे से जानती है  
क्योंकि वो हमें सब से नौ महीने ज्यादा पहचानती है  
हमारी अंदर की हर खुबी को वो स्वीकारती है ।  
इसलिए तो हमारी माँ वो कहलाती है ।

माफ़ी के पहले दो शब्दों में माँ है  
उससे ही तो आज ये सारा ब्रम्हाड रचा है ।  
सच सच बोल तो हर वक्त हम माँ की कसम लेते है...  
इसलिए तो हम उसे हमारी माँ कहते है...

कुछ बडा काम करने से पहले माँ का आर्शिवाद लेते है....  
हमें पता है माँ के बाद ही भगवान आते है  
दुःख होता है तो भगवान का नही माँ का पल्लु पकड कर हम रोते है...  
इसलिए तो हमारी माँ को भगवान जैसे हम मानते है...

अंग्रजी में मम्मी... मराठी में आई और हिंदी में माँ है...  
पर सच बोलू दोस्तों इन सब का मतलब प्यार ही है...  
परेशानी के वक्त हमारे सिर के ऊपर प्यार का हाथ घुमाती है...  
वो ही तो है हमारी माँ ... हमारी माँ... हमारी माँ...

Hritik Bengle  
XII - B



# BHAVANANKUR



**CRICKET**



**BADMINTON**



**CHESS AT GYMKHANA**



**DEBATE**



**CARROM**



**ELOCUTION**



**BEST OUT OF WASTE**



**PRIZE DISTRIBUTION**



# BHAVANANKUR



## CULTURAL EVENTS




## INDUSTRIAL VISIT AT BANGAORE & MYSORE



# BHAVANANKUR


## COLLEGE FESTIVAL FREAK





# BHAVANANKUR

## Bhavna Trust Cricket Academy



Cricket Ground



Cricket



## My Favourite Dramatist

-G.B.Shaw

At the mention of the word dramatist a numbers of names flash across my mind Shakespeare the greatest of all dramatists of all time, Kalidasa, whom some of the critics of second order refer to as the Indian Shakespeare and the hosts of others. I have a band of favourites; and if I have to talk of only one, well, my choice is for George Bernard Shaw.

In 1905, his first great play 'Man and Superman' was performed and he was soon recognized as the world's most famous living playwright. In spite of his unpopularity with some of his critics who did not like his advanced views and he wish to reform the society, he took his seat next only to Shakespeare, long before he received the Noble Price for literature in 1925.

People might say that all his plays, in some sense, are intended to be vehicles of propaganda. If it is really propaganda, it is for the eradication of the ills that affects the society and for building up a better and happier tomorrow. True, he has not chosen the path of social workers or reformer his medium is art but the motto is not 'Art for arts' sake' but art with a purpose. Therefore the question should be; does he sacrifices the art in the name of reformation? I firmly believe that he does not. Like all the great writers and poets, shaw too has a message to give; a philosophy to propound. You may say he is not original. But I think a Vivekananda is as important as a Ramkrishna Paramhansa, so is Shaw Whatever he might call it by, he has a beautiful vision regarding the future of mankind. Man is evolving, to become a stronger and wiser-man; to become a superman. Like our physical features, our strength of will too will be passed on to our descendants. Finally there will come a day when nations will live with no fear of war or vice. It is not what our ancient rishis dreamt of a heaven on earth?

**Mr Vivek Birajdar**

Asst. teacher of English



तु

कोण आहेस तू  
मित्र आहेस की आहेस सखा  
रोज पाहिले तरी मज वाटतो नवखा  
मैत्रीण मला म्हणतोस पण  
प्रियकरापेक्षा जीव लावतोस तु  
रक्ताहुन मनाचं नांत मोठ  
जाणीव घ्याची करतोस तु  
बरंच काही सांगायचं असुनही

बरंच कमी बोलतोस तू  
तू बोल तू बोल म्हणून  
मलाचं बोलतं करतोस तू  
तुच माझी सखी आहेस  
मला नेहमी सांगतोस तू  
पण मनातील दुःख  
माझ्यापासूनच लपवतोस तू  
सोबत तुझ्या असताना  
दुःख विसरायला लावतोस तू

**Priyanka Karanje**

SYIT

के.टी (KT)

पहिली ते दहावी माहित नकता शब्द नापास हेच तर होते माझ्या अभ्यासाचं वैशिष्ट्य खास अकरावीला गेल्यावर कळले अभ्यासाचे महत्व पण, कळतच नकत त्यातल खरं तत्व, फिजिक्स, केमिस्ट्री विणल डोक्याभोवती जाळ सोडवताना आला बोर्डाच्या परिक्षेचां काळ, बोर्डाची परिक्षा निकालात बदलली निकाल हाती आल्यावर स्वतःची लायकी कळली आता होती अपेक्षा सी.ई.टी.च्या निकालाची पण माहित नकतं तिथेही होईल आमची गोची; वाहू लागले डिग्रीच्या प्रवेशाचे वारे पण डोक्यावर जड झाले होते डोनेशनचे भारे. विचारले होते बहुतेकांनी मोठेपणी कोण होणार ? मी ही गर्वाने सांगायचे इंजिनियर होणार पण पालटले माझ्या आयुष्याचे चित्र घेतले आय. टी ला प्रवेश आणि भेटले नविन मैत्रीण मित्र वाटले नकते एवढे अवघड असेल ते आ.टी पण पटलेच ते शेवटी जेव्हा लागली पहिल्याच सेमिस्टरला के.टी

**Priyanka Karanje**

SYIT



## महाराष्ट्र पोलीस :-

खाकी कपड्यावाल्या तुझे  
कर्ज कसे रे फेडायचे  
जनावरा सारखे वागतोस वेड्या  
विसरुन गेला रडायचे. ॥७॥

आम्ही शिमगा दिवाळी खातो  
तेव्हा तू बंदोबस्ताला जातो  
आडवे आम्ही झोपतो तेव्हा  
वणवण बाहेर एकटा फिरतो  
आमची गाडगी भरली सारी  
तुझे कधी रे भरायचे?  
आमची कामे उरकली जरी  
तुझे जधी रे सरायचे ? ॥१॥

कुत्र्यासारखे मरतात लोक  
पहिला पाहुणा होऊन जातोस  
घरची लोकं नाक दाबतात  
तरी तु प्रेताच्या जवळ येतोस  
चोऱ्या होतात गावोगावी  
तिथेही तुलाच पळायचे  
तझ्या काळजातले दुखणे बाबा  
नाही कुणाला कळायचे ॥२॥

एका दणक्यात लबाडी बाहेर  
जादुटोणा करतोस कशी?  
कितीही मोठा दरोडा पडला तरी  
चोर तु धरतोस कशी ?  
तुझे जगणे संतासारखे  
ह्या लोकांसाठी खपायचे  
आमच्या लफडयांपायी बाबा  
विसरुन गेला झोपायचं ॥३॥

खाकी कपड्यावाल्या तुझे कर्ज कसे रे फेडायचे ?  
जनावरासारखे राबतोस वेड्या, विसरुन गेला रडायचे ॥४॥

Priyanka Karanje

SYIT



## माझा प्रियकर एम.बी.एस आहे:-

त्याला म्हणाले मला आजकाल झोप येत नाही  
काय करू तुझी आठवण मला झोपूच देत नाही.  
क्षणभर विलंब न करता त्याने त्याची बैग उघडली  
झोपेची गोळी काढून माझ्या हातावरती दिली  
काय सांगू तुम्हाला माझी वेगळीच केस आहे  
अहो ! प्रियकर माझा एम.बी.एस. आहे.

मी म्हणाली माझ्या प्रत्येक श्वासात तुझाच गंध आहे  
रक्ताच्या प्रत्येक थेंबात, तुझ्या प्रेमाचा रंग आहे  
तो म्हणाला धीर धर अजून थोडासाच उशीर आहे  
उदवा आमच्या रुग्णालयात मोफत रक्ततपासणी शिबिर आहे  
काय सांगू तुम्हाला माझी वेगळीच केस आहे  
अहो प्रियकर माझा एम. बी. एस आहे.

मी म्हणाली तुझ्यासाठी काहीही करू शकते.  
माझे हृदय काढून तुझ्या हाती देऊ शकते  
त्याक्षणी उठला आणि आत निघून गेला  
कपाटानुन हातात डिसेक्शन बॉक्स घेऊन आला  
मित्रांनो अशी ही, माझी वेगळीच केस आहे  
अहो ! प्रियकर माझा एम. बी. एस आहे.

एकदा त्याच्याशी बोलताना पाय माझा अडखळला  
त्याने त्याचा रुमाल माझ्या पायावरती बांधला  
नजरेस नजर मिळवून माझ्या, हळूच तो म्हणाला पडलीस तु,  
पण जखम माझ्या काळजावरती झाली  
.... तर माझी ही केस अशी आहे  
एक एम. बी.बी. एस माझा प्रियकर आहे .



Checked

Date sign

Priyanka Karanje  
SYIT



## Indian Culture

The Indian culture is one of the ancient known cultures and has a 500 years old rich history. It has not only been shaped by its long history. Unique geography and its diverse demography but also by its rich heritage. India's diverse culture includes different languages, Food, Clothing, religion traditions, heritage, etc. Indian culture is spread from the india point in Mount Everest in the north to the Ram of Kutch in Gujarat and Continues till the Southern part of Kanyakumari.

We Should be Proud of our rich Culture and make all efforts to preserve it for the future generations too.

## India in my Dreams

India in my dreams will be green clean and prosperous I Pray that it happens soon so that the citizens of this great nation can appreciate the beauty that India encompasses.

The Current state of our nation has been created by the irresponsible acts of its citizens. We throw waste on the road. We pollute the atmosphere and plunder the natural resources, without thinking once about the damage that we are inflicting on our nation.

let us build India of our dreams. Let us take individual responsibility for our actions and stop the blame game.

*Ayesha Mohid Sajid*  
S.Y.Bcom



## माँ



मुझे कोई और जन्त का नही पता...  
क्योकि हम माँ के कदमों को ही जन्त कहते है !!

किसी ने माँ के कंधे पर सर रख के पूछा  
माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी ?  
माँ ने कहा जब तक लोग  
मुझे अपने कंधे पर न उठा ले !!

माँ की ममता घने बादलो की तरह  
सर पे साया किए साथ चलती रही  
एक बच्चा किताबे लिए हाथ में  
खामोशी से सडक पार करते हुए...

## माँ

दुनियाँ का पहला प्रेम...माँ  
सबसे (कीमती) वरदान... माँ  
धरती पर ईश्वर की कहानी... माँ  
खुशियों के बाग में बागवान ...माँ  
प्रकृति के सौंदर्य का पहला उपहार...माँ  
काटोभरी राह में फुलो का अहसास...माँ  
खुशियों के अनमोल खजाने की राह...माँ  
प्यार ओर डांट का खट्टा मिट्टा खेल ...माँ  
गैरों की दुनिया में अपनों का विश्वास ...माँ  
कुदरत की सम्पूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था ...माँ



मा तो जन्त का फूल है.  
प्यार करना उसका उसूल है

दुनिया की मोहब्बत फिजूल है.  
मां की हर दुआ कबूल है.

मां को नाराज करना  
इसान तेरी भुल है

मां के कदमो की मिट्टी  
जन्त की धूल है !!

Ayesha Mohd Sajid  
S.Y.Bcom



## माझा प्रियकर एम.बी.एस आहे:-

त्याला म्हणाले मला आजकाल झोप येत नाही  
काय करु तुझी आठवण मला झोपूच देत नाही.  
क्षणभर विलंब न करता त्याने त्याची बैग उघडली  
झोपेची गोळी काढून माझ्या हातावरती दिली  
काय सागू तुम्हाला माझी वेगळीच केस आहे  
अहो ! प्रियकर माझा एम.बी.एस. आहे.

मी म्हणाली माझ्या प्रत्येक श्वासात तुझाच गंध आहे  
रक्ताच्या प्रत्येक थेंबात, तुझ्या प्रेमाचा रंग आहे  
तो म्हणाला धीर धर अजून थोडासाच उशीर आहे  
उद्या आमच्या रुग्णालयात मोफत रक्ततपासणी शिबिर आहे  
काय सागू तुम्हाला माझी वेगळीच केस आहे  
अहो प्रियकर माझा एम. बी. एस आहे.

मी म्हणाली तुझ्यासाठी काहीही करु शकते.  
माझे हृदय काढून तुझ्या हाती देऊ शकते  
त्याक्षणी उठला आणि आत निघुन गेला  
कपाटातुन हातात डिसेक्शन बॉक्स घेऊन आला  
मित्रांनो अशी ही, माझी वेगळीच केस आहे  
अहो ! प्रियकर माझा एम. बी. एस आहे.

एकदा त्याच्याशी बोलताना पाय माझा अडखळला  
त्याने त्याचा रुमाल माझ्या पायावरती बांधला  
नजरेस नजर मिळवून माझ्या, हळूच तो म्हणाला पडलीस तु,  
पण जखम माझ्या काळजावरती झाली  
.... तर माझी ही केस अशी आहे  
एक एम. बी.बी. एस माझा प्रियकर आहे .



Checked

Date sign

Priyanka Karanje  
SYIT



# BHAVANANKUR



**TEACHING STAFF (DEGREE) COLLEGE WITH PRINCIPAL, DIRECTOR & PRESIDENT**



**TEACHING STAFF (JUNIOR) COLLEGE WITH PRINCIPAL, DIRECTOR & PRESIDENT**



**NON TEACHING STAFF WITH PRINCIPAL, DIRECTOR & PRESIDENT**



# BHAVANANKUR

## CONVOCAATION CEREMONY



*By Chief Guest Mr. Deepak Raja*

## PRIZE DISTRIBUTION



*By Chief Guest Mr. Paresh Udeshi*